



Mr. Tyagi

12 Jan 2026

06:46 AM

Dubai

Model: Baby-Horoscope

Order No: 120910401


तिथि 12/01/2026 समय 06:46:00 वार सोमवार स्थान Dubai चित्रपक्षीय अयनांश : 24:13:21
अक्षांश 25:18:00 उत्तर रेखांश 55:20:00 पूर्व मध्य रेखांश 60:00:00 पूर्व स्थानिक संस्कार -00:18:40 घंटे

पंचांग	अवकहड़ा चक्र
साम्पातिक काल : 13:53:48 घं	गण _____: देव
वेलान्तर _____: 00:08:15 घं	योनि _____: महिष
सूर्योदय _____: 07:06:18 घं	नाडी _____: अन्य
सूर्यास्त _____: 17:47:08 घं	वर्ण _____: शूद्र
चैत्रादि संवत _____: 2082	वश्य _____: मानव
शक संवत _____: 1947	वर्ग _____: मृग
मास _____: माघ	रैजा _____: मध्य
पक्ष _____: कृष्ण	हंसक _____: वायु
तिथि _____: 9	जन्म नामाक्षर _____: रो-रोहित
नक्षत्र _____: स्वाति	पाया(रा.-न.) _____: स्वर्ण-रजत
योग _____: धृति	होरा _____: गुरु
करण _____: गर	चौघड़िया _____: चर


विंशोत्तरी	योगिनी
राहु 8वर्ष 6मा 23दि	पिंगला 0वर्ष 11मा 12दि
राहु	पिंगला
12/01/2026	12/01/2026
05/08/2034	25/12/2026
00/00/0000	00/00/0000
00/00/0000	00/00/0000
12/01/2026	00/00/0000
बुध 04/02/2027	12/01/2026
केतु 23/02/2028	उल्का 04/02/2026
शुक्र 22/02/2031	सिद्धा 26/06/2026
सूर्य 17/01/2032	संकटा 05/12/2026
चन्द्र 18/07/2033	मंगला 25/12/2026
मंगल 05/08/2034	

ग्रह	व	अ	अंश	राशि	नक्षत्र	पद	स्वामी	अं.	स्थिति	षट्बल	चर	स्थिर	ग्रह तारा
लग्न			21:35:43	धनु	पूर्वाषाढा	3	शुक्र	गुरु	---	0:00			
सूर्य			27:40:17	धनु	उत्तराषाढा	1	सूर्य	चंद्र	मित्र राशि	1.34	अमात्य	पितृ	वध
चंद्र			13:39:25	तुला	स्वाति	3	राहु	बुध	सम राशि	0.81	ज्ञाति	मातृ	जन्म
मंगल	अ		27:01:27	धनु	उत्तराषाढा	1	सूर्य	सूर्य	मित्र राशि	1.22	भातृ	भातृ	वध
बुध	अ		21:46:03	धनु	पूर्वाषाढा	3	शुक्र	गुरु	सम राशि	1.16	पुत्र	ज्ञाति	साधक
गुरु	व		25:38:56	मिथु	पुनर्वसु	2	गुरु	बुध	शत्रु राशि	1.14	मातृ	धन	सम्पत
शुक्र	अ		28:58:04	धनु	उत्तराषाढा	1	सूर्य	मंगल	सम राशि	0.88	आत्मा	कलत्र	वध
शनि			02:41:06	मीन	पूर्वाभाद्रपद	4	गुरु	राहु	सम राशि	1.04	कलत्र	आयु	सम्पत
राहु	व		16:04:34	कुंभ	शतभिषा	3	राहु	शुक्र	मित्र राशि	---	---	ज्ञान	जन्म
केतु	व		16:04:34	सिंह	पूर्वाफाल्गुनी	1	शुक्र	सूर्य	शत्रु राशि	---	---	मोक्ष	साधक


लग्न-चलित




चन्द्र कुंडली




नवमांश कुंडली



सर्वाष्टकवर्ग



दशमांश कुंडली



नक्षत्रफल

आप स्वाती नक्षत्र के तृतीय चरण में उत्पन्न हुए हैं। अतः आपकी जन्मराशि तुला तथा राशिस्वामी शुक होगा। नक्षत्रानुसार आपका गण देव, नाड़ी अन्त्य, योनि महिष, वर्ग मृग तथा वर्ण शूद्र होगा। नक्षत्र के चरणानुसार आपके जन्म नाम का आधाक्षर "रो" होगा। यथा-रोहित।

आपकी प्रवृत्ति स्वभाव से ही सहनशील रहेगी तथा सुख एवं दुःख को समान रूप से सहन करने की शक्ति आप में विद्यमान रहेगी। व्यापार में आपकी विशेष रुचि रहेगी तथा अपनी आजीविका में प्रधानकार्य के रूप में व्यापार का आप चुनाव कर सकेंगे। आप के हृदय में दया एवं करुणा की भावना सर्वदा विद्यमान रहेगी तथा दीनदुखियों के प्रति अपनी इस भावना का आप जीवन काल में प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी वाणी हमेशा मधुर एवं प्रिय होगी जिससे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी प्रवृत्ति धामिकता की भावना से युक्त रहेगी तथा निष्ठापूर्वक आप धर्माचरण में सर्वदा तत्पर रहेंगे।

दान्तो वणिक्कृपालु प्रियवाग्धर्माश्रितः स्वातौ।

बृहज्जातकम्

अर्थात् स्वाती नक्षत्र में उत्पन्न जातक क्लेश सहिष्णु, व्यापारी, कृपाकारक, मधुर वाणी बोलने वाला और धर्माचरण में तत्पर होता है।

आप हमेशा देवता एवं ब्राह्मणों के भक्त रहेंगे तथा उनके प्रिय कार्य अर्थात् धामिक कार्य कलापों को करने वाले होंगे। साथ ही समय समय पर इनकी भी पूजार्चन सम्पन्न करते रहेंगे। अपने जीवन में आप नाना प्रकार के सुख ऐश्वर्य तथा वैभवादि का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करेंगे तथा इनके अभाव की आपको कभी भी अल्पता प्रतीत नहीं होगी। साथ ही धन से भी आप सर्वदा सुसम्पन्न रहेंगे। परन्तु आपकी बुद्धि तेज नहीं होगी तथा मध्यम बुद्धि से ही आपके कार्य सफल होंगे।

स्वात्यां देवमहीसुरप्रियकरो भोगी धनी मन्द धीः।

जातकपरिजातः

अर्थात् स्वाती नक्षत्र में उत्पन्न जातक देवता और ब्राह्मणों का प्रिय करने वाला, भोगी, धनी, किन्तु मन्द बुद्धि से युक्त होता है।

आपका शारीरिक स्वरूप देखने में अत्यन्त ही सुन्दर एवं आकर्षक होगा जिससे लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। साथ ही मुखमंडल में भी तेजस्विता विद्यमान रहेगी। आपकी मुख मुद्रा समान्यतया प्रसन्नता को प्राप्त रहेगी एवं दुःख प्रदर्शन का इसमें अभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य अथवा सरकार से धन की प्राप्ति भी करेंगे तथा जीवन में आनन्दपूर्वक उसका उपभोग करेंगे।

**कन्दर्परूपः प्रभयासमेतः कान्तापरप्रीति रतिप्रसन्नः ।
स्वाती प्रसूतौ मनुजस्य यस्य महीपति प्राप्त विभूतियुक्तः ।।
जातकाभरणम्**

अर्थात् स्वाती नक्षत्र में उत्पन्न जातक कामदेव के समान सुन्दर रूप वाला, अनेक स्त्रियों से प्रीति रखने वाला, प्रसन्नचित तथा राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है।

आप विविध प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता होंगे तथा परिश्रम पूर्वक इनका तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। अतः समाज में एक विद्वान के रूप में आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। धर्म के प्रति आपके मन में पूर्ण आस्था रहेगी परन्तु समाज में अन्य स्त्रियों से आप अनुरक्त रहेंगे तथा उनके प्रिय भी रहेंगे। आप स्वभाव से विनम्र तथा सुशील होंगे तथा देवताओं की भी आप पूजार्चना करने वाले होंगे परन्तु प्रकृति से हमेशा कंजूस रहेंगे।

**विदग्धो धार्मिकश्चैव कृपणः प्रियवल्लभः ।
सुशीलो देवभक्तश्च स्वातौ जातो भवेन्नरः ।।
मानसागरी**

अर्थात् स्वाती नक्षत्र में उत्पन्न जातक विद्वान, धार्मिक, कृपण, अन्य स्त्रियों का प्रिय, सुशील एवं देवताओं का भक्त होता है।

आप स्वर्ण पाद में उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि स्वर्ण पाद में उत्पन्न होने के कारण जातक को कई प्रकार से दुःख एवं कष्ट प्राप्त होते हैं। इस से उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तथा प्रायः धनाभाव से भी दुःखी रहता है। साथ ही जीवन में सुख संसाधनों से भी हीन रहता है तथा सांसारिक कार्यों में अल्प मात्रा में सफलता प्राप्त होती है जिससे मन में तनाव आदि विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अत्यधिक परिश्रम के द्वारा अल्प सफलता अर्जित होती है। चूंकि आपका चन्द्रमा जन्म कुण्डली में शुभ राशि में स्थित है। अतः आपके लिए यह स्वर्ण पाद अधिकांश शुभ फल ही प्रदान करेगा। अतः आप जीवन में समस्त सुख संसाधनों वैभव ऐश्वर्य एवं धनादि से सर्वदा सुसम्पन्न रहेंगे एवं जीवन में पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करके समाज में एक धनाढ्य पुरुष के रूप में प्रख्यात रहेंगे। समाज में आप एक सम्माननीय व्यक्ति होंगे तथा सभी लोग आपका हार्दिक सम्मान करेंगे। साथ ही वाहनादि सुखों से भी आप युक्त रहेंगे एवं जीवन में प्रसन्नतापूर्वक इसका उपभोग करेंगे। आप सद्गुणों से सर्वथा सम्पन्न रहेंगे। आपकी पत्नी भी सुन्दर सुशील एवं गुणवान होगी तथा आपके सेवकगण भी ईमानदार रहेंगे। साथ ही आप के लाभ मार्ग भी हमेशा प्रशस्त रहेंगे। आप दीर्घायु होंगे एवं शारीरिक कान्ति भी दर्शनीय रहेंगी। इसके अतिरिक्त पुत्रादि का भी आप पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे।

तुला राशि में जन्म लेने के कारण आप शरीर तथा मुख से सुन्दर होंगे। आपकी आंखें बड़ी बड़ी होगी तथा नाक कुछ ऊंची होगी। जीवन में आप नाना प्रकार के वाहनों से सर्वथा सुसम्पन्न रहेंगे तथा सुखपूर्वक इनका उपभोग करेंगे। समाज में अन्य जनों से आपके

मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध रहेंगे साथ ही भूमि एवं वाहनादि से आप शक्तिशाली रहेंगे त पराकमी पुरुष भी होंगे। आपके प्रभाव को सभी लोग स्वीकार करेंगे तथा मन से आपको सम्मान प्रदान करेंगे। धनवैभव एवं ऐश्वर्य से आप सर्वदा सम्पन्न रहेंगे। आप अपनी स्त्री के पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहेंगे तथा सांसारिक कार्य उसी के निर्देश एवं आज्ञा से सम्पन्न करेंगे। विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने की आप में पूर्ण क्षमता रहेगी। देवता एवं ब्राहमणों के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा रहेगी। इसके अतिरिक्त धनधान्य आदि को संग्रह करने की भी आपकी प्रवृत्ति होगी। आप समय समय पर बन्धु वर्ग के हित कार्य भी करते रहेंगे।

**उन्नासो व्यायताक्षः कृशवदनतनुभूरिदारो वृषाढ्यो ।
गो भूम्यः शौचकरो वृषसमवृषणो विक्रमज्ञः क्रियेशः ।।
भक्तो देवद्विजानां बहुविभवयुतः स्त्रीजितो हीनदेहो ।
धान्यादानैकबुद्धिस्तुलिनि शशधरे बन्धुवर्गोपकारी ।।**

सारावली

आप समाज में देवताओं तथा सज्जन पुरुषों की सेवादि कार्य करने में सर्वथा तत्पर रहेंगे तथा आपका जीवन विद्धता पूर्ण एवं पवित्र रहेगा। आपके शरीर में सुगन्धि की वास रहेगी परन्तु शरीर के अन्य अंग शिथिल एवं दुर्बलता को प्राप्त रहेंगे। घूमने तथा यात्रा करने में आप विशेष रुचिशील रहेंगे तथा आपका अधिकांश समय भ्रमणादि में ही व्यतीत होगा। व्यापारिक कार्यों में आप अत्यन्त चतुराई का प्रदर्शन करेंगे तथा समाज में देववाची शब्द के द्वितीय नाम से ख्याति अर्जित करेंगे। आप अपने संबंधियों तथा बन्धुओं का यत्नपूर्वक उपकार करेंगे परन्तु इन्हीं लोगों से बाद में आपको अपमानित भी होना पड़ेगा।

**देवब्राहमणसाधुपूजनरतः प्राज्ञः शुचिः स्त्रीजितः ।
प्रांशुश्चोन्नतनासिका कृशचलदगात्रो डटनोडर्यान्वितः ।।
हीनाङ्गः कयविकयेषु कुशलो देवद्विनामा सरूक् ।
बन्धूनामुपकारकृद्धि रूषतस्त्यक्तस्तु तैः सप्तमे ।।**

बृहज्जातकम्

आपका स्वभाव चंचलता से युक्त रहेगा तथा शरीर भी देखने में दुर्बल होगा। आपकी संतति संख्या अल्प मात्रा में ही उत्पन्न होगी तथा देवता एवं ब्राहमणों के प्रति आपका भक्ति भाव रहेगा। आप में धैर्य का गुण रहेगा। अतः आपके समस्त कार्य शीघ्रता एवं चंचलता से नहीं अपितु धैर्यपूर्वक सम्पन्न होंगे। न्याय के प्रति आप निष्पक्ष होंगे तथा इसमें पूर्ण श्रद्धा रखेंगे। आपकी निष्पक्षता को देखते हुए अन्य लोग अपने वाद विवादों में आपको मध्यस्थ या पंच बनाकर आपका फैसला स्वीकार करेंगे। साथ ही आपका भाग्योदय भी देर से होगा।

**चलत्कृशाङ्गो डुतोडतभक्तो देवद्विजानामटनोद्विनामा ।
प्रांशुश्च दक्षः कयविकयेषु धीरो डदयस्तौलिनि मध्यवादी ।।**

फलदीपिका

आपका शारीरिक कद मध्यम होगा तथा राज्य के उच्चाधिकारियों से आपके मधुर

संबंध रहेंगे तथा इनसे पूर्ण सहयोग तथा आदर की प्राप्ति करेंगे। आप यदा कदा अधिक बोलने लगेंगे जिससे अन्य लोगों में आपके प्रभाव में न्यूनता आएंगी। ज्योतिष अथवा नक्षत्रादि शास्त्र के ज्ञान में आप निपुणता प्राप्त करेंगे तथा बन्धु वर्ग तथा सेवकों के प्रति आपका स्नेह प्रशंसनीय होगा।

भवति शिथिलगात्रो नातिदीर्घो न खर्वी ।

जनपति परितोषी बान्धवेभ्यः प्रदाता ।।

अतिशय बहुभाषी ज्योतिषां ज्ञान युक्तो ।

भवति सः तुलाराशि बन्धुभृत्यानुरागी ।।

जातक दीपिका

यदा कदा आप कुअवसर पर क्रोध करेंगे अतः मन में सन्ताप उत्पन्न होगा। आप अत्यन्त ही प्रिय एवं मधुर वाणी का अपने सम्भाषण में प्रयोग करेंगे। अतः सभी लोग आपसे प्रसन्न एवं प्रभावित रहेंगे। आप के मन में दया का भाव भी रहेगा तथा दीन दुःखियों की आप समय समय पर सहायता करते रहेंगे। आपकी आस्रों में चंचलता का भी आधिक्य रहेगा परन्तु धनागम अनिश्चित रहेगा कभी अधिक मात्रा में होगा तो कभी अल्प मात्रा में। अतः आर्थिक स्थिति आपकी विषम रहेगी। आप घर के अन्दर बलवान तथा घर के बाहर अपने को निर्बल महसूस करेंगे। मित्र तथा बन्धुवर्ग के आप सर्वदा प्रिय रहेंगे।

अस्थानरोषणो दुःखी मृदुभाषी कृपान्वितः ।

चलाक्षश्चललक्ष्मीको गृहमध्येळति विक्रमः ।।

वाणिज्य दक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलः ।

प्रवासी सुहृदयमिष्टस्तुला जातो भवेन्नरः ।।

मानसागरी

आप अपने जीवन काल में नाना प्रकार के वाहनों से हमेशा सुसम्पन्न रहेंगे। दानशीलता की प्रवृत्ति भी आपमें विद्यमान रहेगी। स्त्री के आप अत्यन्त प्रिय होंगे। साथ ही धनैश्वर्य एवं वैभव से भी आप सुशोभित रहेंगे।

वृषतुरंग विक्रमविक्रमनद्विजसुरार्चनदानमना पुभान् ।

शशिनि तौलिगते बहुदारभाग्विभवसंभव संचित विक्रमः ।।

जातकाभरणम्

देव गण में जन्म होने के कारण आपकी वाणी प्रिय लगने वाली तथा मधुर होगी जिससे अन्य लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी बुद्धि निर्मल तथा सादगी पूर्ण होगी। आप अपने विचारों को सरलता से प्रकट करेंगे तथा अन्य जनों के विचारों को भी सुगमता से ग्रहण करेंगे। आप थोड़ी मात्रा में भोजन करना पसन्द करेंगे। गुणों के विषय में आपका ज्ञान विस्तृत रहेगा तथा स्वयं भी श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा वणित गुणों से सर्वथा सम्पन्न रहेंगे। इसके साथ ही नाना प्रकार के धनैश्वर्य से भी युक्त रहेंगे।

आपका स्वरूप देखने में सुन्दर होगा। तथा दानशीलता की सद्भावना से भी

आप युक्त रहेंगे। आप एक बद्धिमान मनुष्य होंगे तथा सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने के उत्सुक रहेंगे। अनावश्यक भौतिकता आपको पसन्द नहीं होगी। साथ ही आप समान में एक विद्वान के रूप में भी प्रतिष्ठित रहेंगे।

**सुस्वरः सरलोक्तमतिः स्यादल्पभोजन करो हि नरश्च ।
जायते सुरगणे ङणज्ञः सुज्ञवर्णितगुणो द्रविणाढ्यः ।।
जातकाभरणम्**

अर्थात् देवगण का जातक अच्छी वाणी वाला, सरल बद्धि से युक्त, अल्प मात्रा में भोजन करने वाला, अन्य जनों के गुणों का ज्ञाता, महान विद्वानों द्वारा वर्णित गुणों से युक्त तथा वैभवशाली होता है।

महिष योनि में पैदा होने के कारण आप लड़ाई झगड़ों तथा विवादों में अधिकांश रूप से विजय प्राप्त करने वाले होंगे। आप स्वयं भी साहसी होंगे तथा वीरता पूर्वक कार्य करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। आपके घर में संततियां अधिक मात्रा में होंगी। आप में वायु प्रकृति की प्रबलता रहेंगी तथा धार्मिक कार्यों में भी आप उत्सुक रहेंगी परन्तु बुद्धि मध्यम ही रहेगी तीक्ष्णता का उसमें सर्वथा अभाव रहेगा।

**संग्रामे विजयी योद्धा सकामस्तु बहुप्रजः ।
वाताधिको मन्दमतिर्नरो महिषयोनिजः ।।
मानसागरी**

अर्थात् महिष योनि में उत्पन्न जातक युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करने वाला, योद्धा, कामाग्नि से प्रबल, अधिक संतति वाला, वायु प्रधान प्रवृत्ति तथा धर्म के प्रति निष्ठावान रहता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति एकादश भाव में है। अतः माता के आप सदैव प्रिय रहेंगे एवं आपके प्रति उनके मन में पूर्ण वात्सल्य तथा स्नेह का भाव विद्यमान रहेंगे। जीवन में आपकी उन्नति एवं समृद्धि के लिए सदैव आपको अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करती रहेंगी। साथ ही उन्हीं के सहयोग से आप अपने आय साधनों की वृद्धि करने में सफल हो सकेंगे। इस प्रकार जीवन के समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही मातृपक्ष से भी आपको नित्य धन लाभ होता रहेगा।

आपके मन में भी उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा का भाव रहेगा तथा उनकी आज्ञा पालन करना एवं उनकी सेवा करना आप अपना प्रिय कर्तव्य समझेंगे। आपके परस्पर संबंध अत्यन्त ही स्नेहपूर्ण रहेंगे एवं उनमें मतभेदों का प्रायः अभाव ही रहेगा। इस प्रकार आप परस्पर एक दूसरे के लिए शुभ रहेंगे।

आपके जन्म समय में सूर्य लग्न में स्थित है। अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे तथा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं किसी भी प्रकार से शारीरिक रुग्णता का अभाव रहेगा। साथ

ही उनकी आयु भी दीर्घ रहेगी। जीवन में वे आपको अपना आर्थिक तथा अन्य रूप से नित्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे जिससे आपके सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होंगे। साथ ही पिता के द्वारा आपको ख्याति भी अर्जित होती रहेगी।

आपके मन में भी उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। साथ ही उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे लेकिन इसका संबंधों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आप जीवन में उनको पूर्ण रूप से आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे एवं अपनी ओर से कोई कष्ट भी नहीं होने देंगे।

आपके जन्म काल में मंगल प्रथम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता उनमें परिलक्षित होगी। धन धान्य से वे प्रायः सुसम्पन्न ही दौरान आपकी- प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव रहेगा एवं जीवन में आपको प्रायः अपना आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

आप भी उनको हृदय से चाहेंगे तथा उनकी वांछित सहायता एवं सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर ही होंगे परन्तु यदा कदा मतभेद के कारण संबंधों में कटुता या तनाव भी उत्पन्न होगा लेकिन यह अल्प समय के लिए ही रहेगा उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस प्रकार मध्यम रूप से आप एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते रहेंगे।

आपके लिए माघ मास, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथियां, शुक्ल योग, तैतिलकरण, गुरुवार चतुर्थ प्रहर तथा धनु राशिस्थ चन्द्रमा हमेशा अशुभ फल दाता रहेंगे। अतः आप 15 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य 4,9,14 तिथियों, शतमिषा नक्षत्र, शुक्लयोग तथा तैतिलकरण में कोई भी शुभ कार्य व्यापार प्रारम्भ, नवगृहनिर्माण तथा अन्य शुभ कार्यों को सम्पन्न न करें अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी। साथ ही गुरुवार चतुर्थ प्रहर तथा धनुराशि के चन्द्रमा को भी शुभ कार्यों में वजित ही रखें। इस समय तथा दिनों में शारीरिक सुरक्षा के प्रति सचेत रहें।

यदि आपके लिए समय अशुभ चल रहा हो मानसिक अशान्ति, शारीरिक व्याकुलता, व्यापार में हानि अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में असफलता प्राप्त हो रही हो तो ऐसे समय में आपको अपनी इष्ट देवी लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए तथा शुक्रवार के उपवास रखने चाहिए साथ ही सोना, हीरा, श्वेत वस्त्र, श्वेत चन्दन, चावल, दूध इत्यादि पदार्थों को श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मन की शान्ति प्राप्त होगी तथा अन्य अशुभ फलों में भी न्यूनता आएगी। इसके अतिरिक्त शुक्र के तांत्रिय मंत्र के कम से कम 20000 जप किसी विद्वान से सम्पन्न करवाने चाहिए। इससे आपके लाभमार्ग प्रशस्त होंगे तथा शुभ फलों के प्रभाव में वृद्धि होगी।

ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः ।
मंत्र- ॐ ह्रीं शीं शुक्राय नमः ।